

## आदिकाल

### राजनीतिक स्थिति

हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल विशृंखलता और राजनीतिक असंतुलन का युग है। 647 ई० में हर्षवर्द्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत का साम्राज्य एकसूत्र होकर न रह सका और छोटे-छोटे टुकड़ों में बैटकर राजपूत गज्जों के रूप में सामने आया। ये राजपूत राज्य निरंतर युद्धों की आग में जलते-जलते अंततः विशाल इस्लाम साम्राज्य बड़ी नींबू में समा गए। आठवीं शताब्दी से पंद्रहवीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थिति हिंदू सत्ता के धीरे-धीरे ध्वनि तथा इस्लामी सत्ता के धीरे-धीरे उदय होने की कहानी है।

आदिकालीन राजनीतिक व्यवस्था में दो बातें मुख्य हैं - केंद्रीय सत्ता का ह्रास और छोटे-छोटे गज्जों का उदय। केंद्रीय व्यवस्था के ह्रास से कला, साहित्य और भाषा में स्थानीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। गुप्त युग और हर्ष युग की केंद्रीय सत्ता के ह्रास के बाद संस्कृत भाषा को केंद्रीयता समाप्त होती चली गई। भाषा प्राकृत और अपभ्रंश की याक्ति के स्तरों हुई देशभाषा के रूप में विकसित हुई। स्थानीयता ने शासकों के बीच मान-अपमान के भी प्रश्न खड़े किए जो उनके बीच आपसी संघर्ष का कारण बना। आपसी संघर्ष और युद्ध के दौरान शौर्य और पराक्रम के साहित्य रचे गए। चंद्रवरद्यई द्वारा रचित 'पृथ्वीराज गासो' इसी प्रकार का काव्य है। इस प्रकार केंद्रीयता का दूटना मात्र सत्ता तक समिति न रह सका अपितु उसके प्रभाव में जीवन का हर क्षेत्र आया।

### धार्मिक स्थिति

जब आदिकालीन साहित्य की रचना हो रही थी, उसी समय उत्तर भारत में तंत्रवाद का विकास हो रहा था और दक्षिण भारत में खक्ति आंदोलन का सूत्रपात हो चुका था। उत्तर भारत में तात्रिक संप्रदायों

का फैलना धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैन, बौद्ध, शैव और वैष्णव सभी संप्रदायों का प्रभाव बढ़ रहा था। तंत्र, योग और भक्ति मार्ग ने जातीय विवरणता को जगह समानता के महत्व को प्रतिपादित किया। हर जगह स्थापित जीवन मूल्यों और परंपरावादी मतवादों पर प्रश्नचिह्न खड़े किए गए। इसका प्रभाव सिद्धों और नाथों के साहित्य में आप देख सकते हैं।

## सामाजिक स्थिति

आदिकालीन समाज में सामंती प्रभाव देखने को मिलता है। इस युग में व्यापक शिक्षा व्यवस्था का अभाव, सांप्रदायिक लमाव, सतीप्रथा, पद्मप्रथा तथा विविध प्रकार के अंधविश्वासों और रुद्धियों का बोलबाला था। ब्राह्मण, अत्रिय, वैश्य, शूद्र - इन चार वर्णों की प्रधानता थी। जाति-पौत्र के बंधन का कसाव मजबूत था। उच्च वर्ण के लोग भोग के लिए और निर्धन वर्ग के लोग मानो श्रम के लिए ही पैदा हुए थे। नारी भी भोग्या मात्र रह गई थी। वह क्रय-विक्रय और अपहरण की वस्तु बनती जा रही थी। धन-संपत्ति की तरह अब सुंदर नारी भी युद्ध का कारण हो गई। 'पृथ्वीराजरासो' और 'बीमलदेव रासो' में कवियों ने युद्ध का कारण नारी-हरण को परिकल्पित किया है। नारी के प्रति सामंती दृष्टिकोण का प्रभाव धर्म पर भी पड़ा। मौद्दियों में देवदासियों की प्रथा शुरू हो गई थी। सिद्धों ने ब्रह्मानंद को सहवास सुख के समान माना और स्त्रियों को लेकर मध्यापन के साथ अनेक बीभत्स विधान का प्रारंभ किया।

## आर्थिक स्थिति

यह युग पूर्णतः कृषि पर आधारित था। राज्य-कार्य किसानों से प्राप्त लगान से ही चलता था। कभी-कभी किसानों को पैदाकार का पचास प्रतिशत तक लगान चुकाना होता था। कर्मचारियों को नगद न देकर जागीर दी जाती थी। इस प्रकार इस युग का समाज दो वर्गों में बैट रहा था - उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। कवि लोग भी उपभोक्तावर्ग के रुचि के अनुसार साहित्य की रचना करते थे। यही बजह है कि आदिकालीन साहित्य में नख-शिख वर्णन, छहसूत्र वर्णन, शौर्य और पराक्रम का वर्णन तो है किंतु किसान वर्ग को संवेदना उपेक्षित है।

## सिद्ध कवि

हर्षवर्द्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति बदल गई। धार्मिक संप्रदायों की पवित्रता समाप्त होने लगी। लोग जादू-टोने और तंत्र-मंत्र में विश्वास करने लगे। तंत्रवाद प्रभावशाली हो गया। बौद्ध धर्म का विकास महायान, हीनयान, वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि शाखाओं में हुआ। बौद्ध धर्म को इन शाखाओं में तंत्र, मंत्र, हठयोग आदि के नाथ पंच मठारों (मांस, मैथुन, मत्स्य, मद्य तथा मुद्रा) को भी विशेष स्थान प्राप्त हुआ। अपने इस रूप में यह मत विकायें को प्रश्रय देकर बाममार्गी हो गया। तंत्र-मंत्र, जादू-टोने तथा भोग-विलास को लेकर चलने वाले ये बाममार्गी ही बौद्ध-सिद्ध कहलाए। ये सिद्ध वज्रयान से संबंधित थे। इनकी संख्या ४४ बताई जाती है। इनमें अधिकांश सिद्ध विहार में नालंदा से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्रों में रहते थे। प्रथम सिद्ध सरहपा को सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। ये सहज जीवन पर अधिक बल देते थे। सिद्धों ने अपने साहित्य में कायायोग, सहज शून्य तथा समाधि की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सिद्धों ने स्थापित रूढ़ मान्यताओं का विरोध किया है।

उनके विरोधी तेवर का प्रभाव कवल साधना के स्तर पर ही नहीं है, अपितु भाषा और सामाजिक मान्यताओं के स्तर पर भी है। उनको भाषा अंतसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करनेवाली प्रतीक भाषा है। इस संधा भाषा भी कहते हैं। इस भाषा-शैली का उपयोग नाथों ने भी किया है। कबीर आदि निर्गुण मर्तों की इसी भाषा-शैली को उलटबाँसी कहा जाता है। कुछ प्रमुख सिद्ध कवि हैं – सरहपा, कम्हपा, शबरपा सुइपा, भीनपा आदि। इनके नामों में प्रत्यय की तरह 'पा' आदराथ 'पाद' शब्द का संक्षिप्त रूप है।

## नाथ कवि

नाथों में कई मूलतः सिद्ध थे। सिद्धों में तंत्र-मंत्र, जादू-टोने और भोगमूलक गुह्याचार जब बहु चले तब वे व्यापक लोकजीवन से कट गए। ऐसे में लोकसम्मत सदाचार, संयम-नियम से परिपूर्ण प्राचीन योग-साधना शैव मत का आधार लेकर प्रभावशाली हो उठी। अनेक सिद्ध इसके प्रभाव में आए। इनमें मत्स्येनाथ, गोरखनाथ जलधरनाथ आदि प्रमुख थे। इनके नेतृत्व में नाथपंथ का प्रादुर्भाव हुआ। स्पष्टतः नाथपंथ का वार्षिक आधार शैव मत है और व्यवहार में उन्होंने पतंजलि के हठयोग को अपनाया है। सिद्धों ने साधना को लोकबाह्य और विकृत बना दिया था लेकिन नाथपंथियों ने उसे किरण से जनता के लिए संभव बनाने पर जोर दिया। नाथ साहित्य में ही महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली यह कि नाथ साहित्य में धर्मनिरपेक्ष दृष्टि दिखाई देती है। इसमें ईश्वर से मिलाने वाला याग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में प्रस्तुत हुआ है। नाथपंथ में धार्मिक कट्टरता नहीं मिलती है। नाथों के साहित्य में यावाचरी साहित्य का गुण मिलना दूसरी महत्वपूर्ण बात है। नाथ योगी अपने धर्म-प्रचार के लिए विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते थे। देश के मध्य भाग तथा पश्चिमी भाग में वे चूमते रहते थे। यात्रा में विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति भाषा और व्यवहार से परिचय होता था। यह प्रभाव उनकी भाषा पर भी पड़ा। नाथों ने धर्म के स्तर पर ही सहिष्णूली और आपसी सद्भाव की भावना विकसित नहीं की। अपितु भाषा के स्तर पर भी उन्होंने इस भाव को अजिंत किया। इसी भाषा की प्रस्तावना ब्राह्म के निर्गुण साहित्य में भी मिलती है। कबीर आदि न इसी प्रकार की भाषा को अपनाया। नाथ साहित्य का व्यापक योगदान सत साहित्य की परपरा को अपना उत्तराधिकार सौंपने में है। सिद्धों की संधा भाषा की तरह उलटबाँसी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। नाथपंथी योगी कवियों में मत्स्येनाथ और गोरखनाथ प्रमुख हैं।

## जैन साहित्य

जैन धर्म का उदय भी उन्हीं आधिक और सामाजिक परिस्थितियों में हुआ था, जिनमें बौद्ध धर्म का चम्प हुआ था। जैनधर्म के अतिन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थकर नर्धमान महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैनधर्म एक और ब्राह्मणों के पुरोहितवाद, वैदिकी हिंसा और वेदांती आदर्शवाद तथा दूसरी और इस समय प्रचलित भौतिकवादी विचारों के विरुद्ध अनवरत संघर्ष की प्रक्रिया में एक दर्शन प्रणाली के रूप में उभरा। जैन मतावलीयों की दृष्टि में भौतिकवादी और वेदांती दोनों हो विधमी थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर की अवधारणा के बिना इस ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाना और जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सका संभव है।

जैन मतावलीयों कवियों ने अपनी रचनात्मकता की अधिक्षित अपद्रव्य भाषा में की है। अतः उनकी अधिकांश रचनाएँ अपभ्रंश साहित्य के अंग हैं। लेकिन कुछ साहित्य ऐसा है जिसे हिंदी भाषा और

साहित्य की रचना कहा जा सकता है, यथा – शास्त्रिभद्र सूरि की रचना 'मारतेश्वर बाहुबलि रास', असुग की कृति 'चंदनवासा रास' आदि। प्रारंभिक हिंदी रचनाओं की सूजनात्मक अनुभूति को समझने के लिए जैन साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल धार्मिक साहित्य के आधार पर जैन ग्रंथों को हिंदी से बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन उनके बाद के विद्वान उनसे सहमत नहीं हैं क्योंकि धार्मिकता साहित्यिक संवेदना का अवरोधक तत्त्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं होता।

जैन मत से प्रधावित अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचे गए। जैन साहित्य का महत्व इस बात में भी है कि वह जैन ग्रंथागारों में सुरक्षित होने के कारण अपनी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध है। जैन साहित्य में तीन प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं। प्रथम प्रकार की रचनाओं में जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। जैन पौराणिक एवं चरित काव्य इसी प्रकार की रचनाएँ हैं। स्वयंभू और पुष्पदंत इस श्रेणी के विशिष्ट कवि हैं। द्वितीय प्रकार की रचनाओं में नाथ-सिद्धों को तरह अंतस्ताधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल है और कर्मकांड का सुन्दर है। दोहों में रचित ये मुक्तक रचनाएँ हैं जिनमें रास, फाग, चर्वरी आदि काव्यों का विवेचन किया गया है। तृतीय प्रकार की रचनाओं में हेमचंद्र और मेरुतुंग की रचनाओं को लिया जा सकता है जिनमें विविध रसों और भावों की प्रकीर्ण मुक्तक रचनाएँ एवं दोहे हैं।

जैन आचार्य हेमचंद्र (12वीं शती) का 'सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन' अपध्यंश का व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपध्यंश तीनों भाषाओं का समावेश मिलता है। आचार्य मेरुतुंग की रचना 'प्रबंधचिंतामणि' (1305) संस्कृत ग्रंथ 'धोज प्रबंध' को हँग पर लिखी गई थी। इसमें बहुत से प्राचीन गुजारों के आख्यान संगृहीत किए गए थे। हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ और मेरुतुंग की प्रबंधचिंतामणि में कुछ जैनेहर रचनाएँ भी संकलित हैं। सदाचार, उपदेश, रुहस्य-साधना वाली मुक्तक रचनाएँ सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती हैं। इनमें भी 'सहज' पा जोर दिया गया है। जोहंदु (10वीं शताब्दी), रामसिंह (लगभग 12वीं शताब्दी) आदि हसी कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। पौराणिक काव्य धारा में अपध्यंश के महान् कवि स्वयंभू आते हैं, जिन्होंने राम कथा को आधार बनाकर 'पठम चरित' की रचना की। स्वयंभू प्रवीं शती के कवि हैं। पठम चरित जायसी के पदमावत और तुलसीदाम के रामचरितमानग की ही तरह कड़वकबड़ है। अपध्यंश के अन्य प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत (10वीं शती) ने 'महापुराण' की रचना की। इनके अतिरिक्त जैन अपध्यंश कवियों ने भागी संख्या में चरितकाव्य लिखे हैं। इनमें पुष्पदंत का 'णायकुमार चरित', 'जसहर चरित'; कनकामर मुनि (11वीं शती) का 'करकांड चरित' अधिक प्रसिद्ध है। 'पवित्रस्यत कहा' नामक अपध्यंश कथाकाव्य धनपाल (10वीं शताब्दी) की ऐसी रचना है, जिसमें लोक प्रवलित कथा को सरल भी बनाए रखा गया है और जैनमत में दीक्षित होने की प्रेरणा भी दी गई है।

शृंगारपरक लौकिक काव्यों की भी कमोवेश यही स्थिति है। संयोग से 'गडलबेल' (11वीं शती) और संदेशरासक (13वीं शती) नामक दो शुद्ध लौकिक शृंगारी काव्य प्रामाणिक तौर पर उपलब्ध हैं। संदेशरासक का महत्व इस बात के लिए भी है कि वह किसी भारतीय भाषा में रचित मुसलमान कवि की प्रथम रचना है। संदेशरासक तीन प्रक्रियों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। गडलबेल का रचयिता 'रोडा' नामक कवि है जिसने किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की गणियों का वर्णन

किया है ।

इस काल में आश्रयदाता राजाओं को भी आधार बनाकर काव्य रचे जाते थे । हेमचंद्र रचित 'प्राकृत पींगलम' के छंद इसकी गुणित करते हैं ।

अपश्चांश काल में दोहा, पद्धटिया, गेयपद आदि प्रमुख छंद और काव्यरूप हैं । बीरता, शृंगार, नीति, धर्म विषयक कृतियाँ दोहा छंद में हैं । हेमचंद्र के व्याकरण में भी अपश्चांश के दोहे संकलित हैं । इससे स्पष्ट है कि दोहा उस समय लोकप्रिय छंद था । इन दोहों की अभिव्यक्ति इतनी निश्चल और सहज है कि इन्हें लोक साहित्य की कोटि में रखा जा सकता है । एक उदाहरण इस्तेव्य है -

भल्ला हुआ जु पारिया बहिणि महारा करु ।

लन्ज्वोर्ज तु खव्यसिअहु जड भागा घरु एतु ॥

(अर्थात् भला हुआ जो मारा गया है बहिन हमारा करता । यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लन्ज्वित होती ।)

### बीरगाथा काव्य

हिंदी साहित्य के विकास क्रम को सुव्यवस्थित रूप प्रदान करते हुए आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को उसकी प्रसिद्ध रचनाओं की प्रमुख पद्धति के आधार पर 'बीरगाथा काल' की संज्ञा दी । इस नामकरण के लिए उन्होंने तक दिया है कि "...राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, शृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे उसी प्रकार आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे । यही प्रबंध परंपरा यसो नाम से पाई जाती है जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने 'बीरगाथाकाल' कहा है ।" आचार्य शुक्ल ने इस काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति को पहचान निम्नलिखित 12 ग्रंथों के आधार पर की है - विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जगचंद्रप्रकाश, जयमर्यक जस चंद्रिका, हम्पीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पटावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और अमीर खुसरो की पटेलियाँ ।

इन चारह ग्रंथों में कुछ ही ग्रंथ प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं - विद्यापति रचित ग्रंथ - 'कीर्तिलता', 'कीर्तिपताका' तथा 'पटावली' एवं नरपति नालह द्वारा रचित 'बीसलदेव रासो' । इनमें से कीर्तिपताका के संपादित एवं प्रकाशित होने का ठल्लेख नहीं मिलता है । बीसलदेव रासो की कुछ पौक्षियों में इसका रचना काल 1155 ई० मिलता है लेकिन डॉ० माताप्रसाद गुप्त इसे 13वीं शती की रचना मानते हैं । बीसलदेव रासो के पाठ का संपादन एवं प्रकाशन डॉ० माता प्रसाद गुप्त द्वाय ही हुआ है । जगनिक कृत 'परमाल रासो' की पहचान उनकी मौखिक बीर रसात्मक रचना आलहा के रूप में की जाती है । आलहा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाई जाने वाली लोकगाथा है । कहा जाता है कि परमाल रासो की कथा आलहा और ऊदल की बीरता पर आधारित है । जगनिक संघवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन (12वीं शती) थे । 'विजयपाल रासो' नल्ल सिंह की रचना है । इसमें विजयपाल और पंगरजा की सङ्घाई का वर्णन है । मिश्रबंधुओं के अनुसार इसका रचनाकाल 14वीं शती है । भाषा शैली के आधार पर यह रचना परवर्ती काल की सिद्ध हो गई है, फिर भी इसे पूर्ववर्ती बीरगाथा की परंपरा के विकास की कड़ी मान जा सकता है ।

'हमीर रासो', 'जयचंद प्रकश', 'जयमथेक जसन्चौटिका' उपलब्ध नहीं हैं। शाहंधर कृत हमीर रासो के कुछ छंद प्राकृत फैगलम में मिलते हैं। दलपत विजय द्वारा रचित 'खुमान रासो' में १८वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। लेकिन मेवाड़ के प्रखरती शासकों महाराणा प्रताप सिंह और राजसिंह के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसका रचनाकाल १८वीं शताब्दी के आसपास है।

रासो काव्य परंपरा का सर्वोच्चिक प्रसिद्ध काव्य चंदवरदाई रचित 'पृथ्वीराजरासो' है। इस काव्य की प्रामाणिकता और रचना काल को लेकर काफी विवाद हुआ है। इसके रचयिता चंदवरदाई परंपरा के अनुसार अपने चरितनायक पृथ्वीराज के समाकवि एवं मित्र जाने जाते हैं। प्राच्य विद्या के बूरोपीय पठितों को आशा थी कि इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास प्रकाश में आएगा। इसलिए डॉ० बूलर को जब ज्यानक रचित संस्कृत काव्य 'पृथ्वीराज विजय' की खोटित प्रति ग्राप्त हुई और उसमें रासो के विषयीत इतिहास सम्पत् तथ्यों का उल्लेख देखकर उन्होंने वह मत व्यक्त किया कि चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के सभापति नहीं थे, इस रूप में यह जाली ग्रंथ है। उन्होंने तत्काल इसके प्रकाशन को रोकने की सिफारिश भी की थी।

पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में तीन वर्ग बन गए थे - पृथ्वीराजरासो को उसके चरितनायक के समय की रचना नहीं मानने वाले विद्वानों में डॉ० बूलर, श्री गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कविराज श्यामलदीन, मुंशी देवी प्रसाद तथा आचार्य गमचंद शुक्ल प्रमुख हैं। डॉ० श्यामसुंदर दास, घोनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्रबंधु तथा कर्नल टॉड इसे प्रामाणिक मानते हैं जबकि मुनिजिन विजय, डॉ० सुनीति कुमार चाटुन्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉ० नामवर सिंह इसे अद्वितीय प्रामाणिक मानते हैं।

श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो १५४३ ई० के आसपास लिखा गया। पृथ्वीराज रासो में उल्लिखित कुछ तथ्य इतिहास विरुद्ध मालूम होते हैं जो उसे अप्रामाणिक सिद्ध करते हैं, लेकिन अब उसकी ऐतिहासिकता की खोज बंद कर दी गई है। मुनिजिन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह में जो चार छप्पय प्रकाशित किए हैं वे वर्तमान में भी विकृत रूप में विद्यमान हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का काल १८वीं शती है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान रासो में चंद के मूल छंद मिले हुए हैं और निश्चय ही चंदवरदाई का काव्य पुरातन प्रबंध संग्रह से काफी पहले की प्रामाणिक रचना है। लेकिन रासो का मूल रूप क्या रहा होगा इसकी समस्या अभी भी बनी हुई है।

पौडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़े ही तक्संगत ढंग से यह स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वीराज रासो काव्यरूप एवं शिल्प की दृष्टि से ऐसी रचना है जैसी अपधेश में रासक या रासो नाम की रचनाएँ बारहवीं शताब्दी तक लिखी जाती थीं। शुक-शुकी संवाद के रूप में कथा वर्णन की शैली तथा तत्कालीन काव्य में प्रचलित विविध कथानक रूढ़ियों के भी लक्षण थे और रासकों के भी। आचार्य द्विवेदी के अनुमान से 'पृथ्वीराज रासो' में शुक-शुकी संवाद के रूप में जो प्रसंग प्रामाणिक जान पड़ते हैं वे हैं - आरोपिक अंश, द्वितीय विवाह, शशिक्रता का गंधर्व विवाह, संयोगिता का जन्म, विवाह, तोमर पाहार का शहावुदीन को पकड़ना। इन प्रसंगों से पता चलता है कीर और शृंगार रासो के प्रमुख रस हैं, डालैंकि अंगी रस वीर ही माना जाएगा। उपर्युक्त प्रसंगों का वर्णन कवि चंद ने विविध छंदों में सहदयतापूर्वक किया है।

बोसलदेव रासो नरपति नाल्ह की रचना है। पाठ के अनुसार इसका रचनाकाल ११५५ ई० है।

यह प्रधानतः शृंगार काव्य है जिसमें बीसलदेव जैसे और राजा की चौरगाथा के स्थान पर बीसलदेव और शोङ्ख परमार की पुत्री के कल्पित विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। हिंदी काव्य में प्रसूक्त बाहुहमासा का वर्णन सबसे पहले बीसलदेव रामों में ही देखने को मिलता है।

## विद्यापति (1360-1448)

विद्यापति ने तीन भाषाओं - संस्कृत, अवहट्ठ और मैथिली में रचनाएँ कीं। संस्कृत में 'शेवसवेस्वसार', 'गंगावाक्यावली', 'भूपरिक्मा', 'पुरुषपरीक्षा' आदि, अवहट्ठ में 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिपताका' तथा मैथिली में 'पदावली' उनकी कृतियाँ हैं, पर उनकी जनप्रियता का आधार मैथिली में रचित कोमलकांत पदावली ही है। उनके पदों में शिव, दुर्गा और गंगा के प्रति अनन्य आस्था है, साथ ही राधा और कृष्ण के प्रेम की निष्कलुच और ईमानदार अभिव्यक्ति। आशा शक्ति राधा और विष्णु के अवतार कृष्ण के प्रेम की अभिव्यक्ति विद्यापति सामान्य प्रकृत धरातल पर करते हैं। भक्ति और शृंगार विद्यापति के लिए विशेषी स्थितियाँ नहीं हैं।

विद्यापति की कालजयिता का कारण जन-जीवन के राग, डल्लास, स्फुर्ति साथ ही उसके अमालों और दुखों से उनका अकृत्रिम चुड़ाव है। 'हे सखि मानुष जनम अनुप' कहकर वे मनुष्य जीवन की विशिष्टता उद्घाटित करते हैं। उनके भक्ति पदों में विनम्रता और सहजता का निश्छल प्रभाव है, एक उदाहरण देखें -

बड़ सुख सार आओल तुझ तीरे

छोड़इत निकट नथन बह नीरे ।

विद्यापति के यहाँ प्रेम की तीव्रता ऐसी है कि प्रिय हर पल नथा लगता है, वहाँ तृप्ति नहीं है - 'जनम अवधि हम रूप निहारल, नवन न तिरपित भेल'। कृष्ण के वियोग में दुखी गोपियों को वे प्रबोधन देते हैं -

मनहि विद्यापति गाओल रे, धैरज भर नारि ।

गोकुल होयत सोहावन रे, फौर मिलत मुरारि ।

विद्यापति के पद लोक में सुरक्षित रहे, इसलिए उनकी भाषा में परिवर्तन भी होता रहा है। अवहट्ठ में रचित 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिपताका' में क्रमशः राजा कीर्ति सिंह और राजा शिवसिंह की बीरता, दान आदि का वर्णन है।

## अमीर खुसरो (1253-1325)

अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एट्य बिले के पठियाली कस्बे में हुआ था। बहुमुखी प्रतिष्ठा के धनी खुसरो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अपने गुरु की मृत्यु पर कहा उनका यह दोहा अत्यंत लोकप्रिय है -

गोरी सोवे सेज पर मुख मुर ढारे केस ।

बल खुसरो भर आपने, ऐसई चहूं देस ॥

अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी कई भाषाओं के जाता खुसरो की कविता में खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी के रूप मिल जाते हैं। विद्वानों में खुसरो की हिंदी कविता को लेकर मतभेद रहा है कि इसकी भाषा बदली हुई है, पर इतना तो सत्य है कि खुसरो ने इन भाषाओं का उपयोग किया और यह भी कि खुसरो के समय ये भाषाएँ इतनी सशक्त हो चुकी थीं कि इनका कविता में उपयोग हो सके। हिंदी या हिंदवी से खुसरो का प्रेम उनके इस कथन में व्यक्त होता है - 'चू मन तूली-ए-हिंदम अर रास्त पुसी'। जिपन हिंदुवी पुर्स ता नम्ब गोयम। (यदि आप मुझसे सच पूछें तो मैं हिंद का तोता हूँ। आप मुझसे मीठी बातें सुनना चाहते हैं तो हिंदी में पूछिए।)

कविता में उन्होंने कई प्रयोग किए। फारसी और ब्रज को मिलाकर गजले कहों, गीत लिखे। उनकी 'पहेलियाँ' और 'मुकरियाँ' प्रसिद्ध हैं। उनका एक दोहा द्वाटव्य है -

खुनरो रैन सुहाग की जागी पी के संग ।  
तन मेरे मन पीड को, दोक घर एक रंग ॥

## लौकिक साहित्य

आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य और चारणों की प्रशस्तिपरक रचनाओं से धिन दूसरे प्रकार की लौकिक काव्यधारा भी प्रवाहशील थी। साहित्य की यह लोकधारा ही वास्तविक अर्थ में देशभाषा काव्य थी जो हिंदी साहित्य के विकास के मूल में है। आदिकाल में मुलतान, राजस्थान, दिल्ली, अवध और मिथिला से लौकिक साहित्य प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में कवि अद्वैतानन्द, अमीर खुसरो, ज्योतिरीश्वर तथा और विद्यापति के नाम उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों की भाषा पर स्थानीयता का गहरा संग चढ़ा हुआ है।

## संदेश रासक

इसकी रचना कवि अद्वैतानन्द (अद्वैतानन्द) के द्वारा बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में मूल स्थान (मुलतान) के आसपास हुई थी। इसकी रचना अपनी भाषा में, किंतु बोलचाल के अधिक नजदीक थी। 'संदेश रासक' एक दृत काव्य है। काव्य की मूल कथा में विजय नगर की प्रेषितपतिका नायिका का वर्णन है जिसका पति धनार्जन हेतु खुँभात गया है। यह विरहिणी नायिका एक पथिक के माध्यम से अपनी विरहानुभूति का संदेश पति तक संप्रेषित करना चाहती है। इसमें मंगलाचारण, आत्म-परिचय, ग्रन्थ लिखने के औचित्य, परहङ्गतु वर्णन तथा रूप वर्णन जैसी शास्त्रीय रूपदियों की कमी नहीं है, फिर भी उसमें नारी के करुणामय हृदय का संदेश मार्गिक है। इस काव्य में लोक जीवन के अद्भूत चित्र प्राप्त होते हैं।

## दोला मारू रा दूहा

'दोला मारू रा दूहा' की रचना ग्यारहवीं शताब्दी में पश्चिमी राजस्थान में हुई थी। यह एक लोकभाषा काव्य है। इस काव्य कृति में कथानक इस प्रकार से बुना गया है कि कथा का मुख्य सूत्रधार राजकुमार दोला ही प्रतीत होता है। राजकुमार दोला दो विवाह करता है। उसका प्रथम विवाह मारवणी से होता है। राजकुमार दोला शोष्ण ही मालव प्रदेश की यात्रा करता है और वहाँ एक दूसरी लहड़की मारवणी से शृंग करने लगता है। मारवणी अपने प्रदेश में विहङ्ग व्यथा से ब्रसत है। मारवणी अपनी आंतरिक बेदना

का संदेश ढाईयों के माध्यम से रुचकुमार ढोला तक पहुँचती है। वस्तुतः यह काव्य पुरुष की स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति एवं नारी जीवन की पराधीनता और विवशता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। हिंदी साहित्य में दोहा के विकास को समझने में 'ढोला भासू ग दूहा' का व्यापक महत्व है।

## गद्य रचनाएँ

आदिकालीन हिंदी साहित्य में देश के विविध भागों में विविध प्रकार की गद्य रचनाएँ भी हो रही थीं। गद्य रचना में जीवन और समाज की वास्तविकता को प्रकट करने की शक्ति होती है। आदिकाल में जितने प्रकार की गद्य रचनाएँ मिलती हैं, उनमें कहीं न कहीं तत्कालीन जीवन के यथार्थ का वर्णन है। इस युग की गद्य कृतियों में रोडा के 'राठलबेल' के अतिरिक्त दायोदर भट्ट गच्छत 'उक्तिव्यवितप्रकरण' (12वीं शती) ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति 'वर्ण रत्नाकर' (14वीं शती), उक्ति व्यक्ति संदेश (14वीं शती), चौरंगीष की रचना 'प्राण सकली' तथा विद्यापति की 'कीर्तिलता' और 'कीर्तिपताका' (14वीं शती) के नाम उल्लेखनीय हैं।

## सामान्य विशेषताएँ एवं महत्त्व

आदिकाल के नाम से अभिहित हिंदी साहित्य का प्रथम युग अपनी विविधता और परम्परा विशेषी प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता है। इस युग में राजनीतिक उथल-पुथल, विदेशी आक्रमण तथा संस्कृतियों के संकरण से अशांति और विलुप्ति का परिवेश बनता चला गया। यहाँ छिन्न-भिन्न सामाजिक स्थिति, विविध धर्म, संप्रदाय एवं दर्शनों का फैलता प्रभाव है। टीने-टीटके, तंत्र-मंत्र, डाढ़-चमत्कार से जनता आकर्षित-प्रभित दिखाई पड़ती है। एक 'ओर जहाँ जैन, वैष्णव, शैव, कापालिक, शाक्त, सिद्ध एवं नाथ आदि कई धार्मिक संप्रदायों ने तद्युगीन साहित्य में अपनी उपस्थिति दर्ज की है तो वहाँ दूसरे कवियों ने अपने आश्रयदाताओं और उनके पूर्वजों के पराक्रम, रूप एवं दान की प्रशंसा की है। भूमि और नारी का हरण भी राजाओं पर लिखे गए काव्य के सामान्य विषय हैं। आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों में एक अंतराल है और विरोध भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा भी है - "शायद ही भानुवर्ध के साहित्य में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा।"

आदिकाल का महत्त्व इस बात में तो है ही कि वह हिंदी साहित्य के विकास का शुरुआती दौर है, किंतु साथ ही यह परबर्ती हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों, काव्य शैलियों आदि का उद्गम स्थल भी है। इस युग के साहित्य में भाषा को दृष्टि से हिंदी के आदि रूप की जानकारी मिलती है और भाव की दृष्टि से हम इसमें आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के प्रारंभिक रूप को देख सकते हैं। काव्यरूपों के प्रयोग की दृष्टि से भी इस युग के साहित्य का महत्त्व है। इस युग के सिद्धों और नाथों का प्रभाव भवित्वाल में कबीर आदि संत कवियों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार - "कबीर आदि निर्गुणवादी संतों की चाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय हैं और बीदू धर्म के अलिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदादि से उसका संबंध है। वे ही पद, वे ही रुग-गुगिनियाँ, वे ही दोहे, वे ही चौपाइयाँ कबीर आदि ने व्यवहार की हैं जो उक्त नाम के मानने वाले उनके पूर्ववत्ती संतों की थीं। क्या भाव, क्या भाषा

तथा क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र वे ही कवीरदास के मार्ग दर्शक हैं ?”

महापंचित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चौरासी सिद्धों में 36 विहार के निवासी थे, और जो विहासी नहीं थे, वे भी विहार के नालंदा और बिक्रमशिला से जुड़े थे। इस तरह यह बात साफ है कि चौरासी सिद्धों की साहित्य सेवा का मूल योग विहार ही रहा है। सिद्ध-साहित्यकारों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, भुसुकपा का नाम उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त शांतिरक्षित नामक सिद्ध आपनी विद्वत्ता के लिए सुप्रसिद्ध थे। ‘प्राणसंकली’ के रचनाकार चौरंगीया उस समय के एकमात्र गद्यकार माने गए हैं। इनके गद्य में भोजपुरी भाषा की झलक मिलती है।

चौदहवीं शताब्दी में मिथिला के साहित्यकारों ने हिंदी की समृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया। इन साहित्यकारों ने शृंगार और भवितपरक रचनाएँ की हैं। भवितपरक रचनाओं में भगवान् कृष्ण और शिव के प्रति भक्षित भावना प्रदर्शित है। काव्यात्म की दृष्टि से महाकवि विद्यापति, उमापति और दामोदर विशेष उल्लेखनीय हैं। उमापति नाटककार थे। इनकी देखादेखी बहुत से नाटक आगे लिखे गए। ज्योतिरीश्वर ठाकुर हिंदी के आर्थिक गद्यकारों में एक माने जाते हैं। इस तरह इस युग में विहार की साहित्य सेवा अत्यंत महत्व की है।

